

## स्कूल का परिचालन

### परिवारों के लिए नियंत्रित रूप से स्कूल वापस जाना

#### माता-पिता व देखभालकर्ताओं के लिए नवीनतम सलाह – 21 अप्रैल 2020

सत्र 2 उसी प्रकार आरम्भ होगा जैसा कि सत्र 1 समाप्त हुआ था। 29 अप्रैल से 8 मई तक NSW के अधिकांश विद्यार्थी घर से ही पढ़ाई करेंगे। स्कूल उन विद्यार्थियों के लिए खुले रहेंगे और काम करते रहेंगे जिन्हें स्कूल आने की आवश्यकता है और किसी भी बच्चे को वापस नहीं भेजा जाएगा। पर, जहाँ व्यावहारिक हो वहाँ माता-पिता को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बच्चों को घर पर ही रखें।

सत्र 2 के तीसरे सप्ताह, 11 मई 2020 से हम नियंत्रित रूप से स्कूल वापस जाना आरम्भ करेंगे। मई।

मुख्य-मंत्री व शिक्षा मंत्री ने COVID-19 के दौरान NSW के स्कूलों को चरणबद्ध रूप से चलाने की घोषणा की है। नए मॉडल में विद्यार्थियों की स्कूल में आमने-सामने कुछ पढ़ाई पुनः आरम्भ की जाएगी जो सप्ताह 3 से आरम्भ होगी।

#### स्कूल परिचालनों की नियंत्रित रूप से वापसी का क्या अर्थ है?

चरणबद्ध रूप से विद्यार्थियों का स्कूल में आमने-सामने पढ़ाई पर लौटना पुनः आरम्भ करने को उपलब्ध स्वास्थ्य सलाह के अनुसार इस प्रकार समझा जा रहा है कि विद्यार्थियों के लिए आमने-सामने कुछ पढ़ाई आरम्भ की जाएगी। योजना चरणबद्ध व आवश्यकता अनुसार है, जो हमें स्कूलों को धीरे-धीरे सामान्य करने देगी व यदि बीमारी फिर से तेज़ी से फैलती है तो हम तुरन्त प्रतिक्रिया कर सकते हैं।

स्कूलों के स्थलों में पूर्ण रूप से परिचालन तक वापस पहुँचने में पाँच चरण हैं:

- चरण 0 (Phase 0) (जहाँ हम अभी हैं)  
स्कूल उन परिवारों के लिए खुले हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है
- चरण 1 (Phase 1)  
विद्यार्थी सप्ताह में कम से कम एक दिन स्कूल जाएँगे
- चरण 2 (Phase 2)  
विद्यार्थी सप्ताह में कम से कम दो दिन स्कूल जाएँगे
- चरण 3 (Phase 3)  
विद्यार्थी सप्ताह में पाँच दिन स्कूल जाएँगे और सामाजिक दूरी के तरीके लागू होंगे
- चरण 4 (Phase 4)  
विद्यार्थी सप्ताह में पाँच दिन स्कूल जाएँगे और स्कूल की सभी गतिविधियाँ की जाएँगी

पूरे सत्र 2 के दौरान में अपने स्कूल से संबंधित चरण में बदलाव के बारे में माता-पिता, देखभाल कर्ताओं व विद्यार्थियों से सीधे संपर्क करेंगे।

#### हम चरणबद्ध दृष्टिकोण को क्यों अपना रहे हैं?

जैसे-जैसे COVID-19 के प्रभाव प्रकट होंगे, हमारे स्टाफ़, विद्यार्थियों व स्कूल समुदाय के स्वास्थ्य व हित को बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक होगा। महामारी के दौरान चरणबद्ध दृष्टिकोण से स्कूल समुदाय, विद्यार्थियों व स्टाफ़, उनके परिवारों, निजी स्थितियों व कार्यस्थलों की विभिन्न आवश्यकताओं का संतुलन कर पाएँगे।



## आमने-सामने पढ़ाई के लिए चरणबद्ध रूप से लौटने के लिए स्कूल व शिक्षक किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं?

सत्र 2 के दौरान, परिचालन संबंधी बदलावों की तैयारी करने के लिए शिक्षकों को समय देने के लिए सोमवार 27 व मंगलवार 28 अप्रैल 2020 को स्कूल विकास दिवस की तरह रखा जाएगा।

मार्गदर्शिकाओं का विकास किया गया है जो स्कूल स्टाफ, विद्यार्थियों व माता-पिता को स्पष्ट संदर्भ बिन्दु प्रदान करेंगी कि COVID-19 के दौरान जैसे-जैसे स्थिति बदलेगी स्कूलों का परिचालन कैसे होगा।

## चरणबद्ध रूप से वापस लौटने के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल सुरक्षित हैं क्या किया जा रहा है?

विद्यार्थियों व स्टाफ के लिए NSW के स्कूल सुरक्षित, साफ व निश्चिन्त स्थान हैं।

NSW पब्लिक स्कूलों में नियमित रूप से व व्यावसायिक स्तर से सफाई की जाती है। NSW के सभी पब्लिक स्कूलों में अधिक मात्रा में सफाई करना लागू किया जा रहा है। उस समय जो स्वास्थ्य सलाह है उसके अनुपात से स्कूल सही सामाजिक दूरी के तरीकों को लागू करते रहेंगे। यह सलाह है कि बच्चों के लिए सामाजिक दूरी वयस्कों से भिन्न होती है।

स्कूल अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सफाई के तरीकों को लागू करते रहेंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- खाना खाने से पहले तथा बाद में व शौचालय जाने के बाद हाथों को कई बार साबुन व पानी से धोना
- खाँसते या छींकते समय नाक व मुँह को ढक कर रखना
- अपने चेहरे को छूने से बचना
- लोगों का अभिवादन करते समय शारीरिक स्पर्श को सीमित करें
- खेल के मैदान में शारीरिक स्पर्श को सीमित करें।

निम्नलिखित सामाजिक दूरी के तरीके भी पहले जैसे ही रहेंगे जब तक कि कोई नई सूचना न आए:

- स्कूलों के बीच प्रतोगिताएँ नहीं होंगी
- कोई असेम्बली नहीं होंगी जब तक कि यह ऑनलाईन न हों
- बच्चों के घूमने के कार्यक्रम नहीं होंगे
- बच्चों को छोड़ने व लेने संबंधी स्कूल की सलाह मानें जिसमें अपनी कार में रुकना भी शामिल है
- स्कूल स्थलों के सामुदायिक उपयोग पर सीमा लगाना।

अतिरिक्त सामाजिक दूरी के तरीके जो लागू किए जा सकते हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ब्रेक के समय को अलग-अलग समय पर करना जिससे कक्षाएँ एक दूसरे से मिलें नहीं
- बच्चों को छोड़ने व लेने के समय को अलग-अलग करना
- छोटी कक्षाएँ
- प्रतिदिन स्कूल में बच्चों की संख्या कम करना
- स्कूल के मैदानों में सामाजिक दूरी के साईन लगाना।

## आमने-सामने पढ़ाई के लिए चरणबद्ध रूप से लौटने का दृष्टिकोण, आरम्भिक बचपन शिक्षा (early childhood education) व स्कूल के बाद के घंटों में देखभाल (out of school hours care) से किस प्रकार संबंधित है?

आरम्भिक बचपन शिक्षा (early childhood education) व देखभाल सेवाएँ जिनमें स्कूल के बाद के घंटों की देखभाल (out of school hours care) शामिल है, हमारे समुदायों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा विभाग के स्थलों पर प्रीस्कूल खुले रहेंगे, और पब्लिक स्कूलों जैसी ही दिशा निर्देशों पर चलेंगे।

सभी सेवाओं से ज़ोर देकर कहा जाता है कि वे उन सभी बच्चों को रखें जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है पर, तब ही यदि वे बच्चे स्वस्थ व ठीक-ठाक हों।

## ये बदलाव आरम्भिक बचपन शिक्षा (early childhood education) व स्कूल के बाद के घंटों में देखभाल सेवाओं (out of school hours care) को किस प्रकार प्रभावित करेंगे?

आरम्भिक बचपन शिक्षा (early childhood education) सेवाएँ जिनमें स्कूल के बाद के घंटों में देखभाल (out of school hours care) शामिल है, अति आवश्यक सेवाएँ हैं और स्वास्थ्य सलाह वही है कि ये सेवाएँ काम कर सकती हैं। आरम्भिक बचपन शिक्षा (early childhood education) को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे खुले रहें जिससे वे ज़रूरतमंद परिवारों को देखभाल प्रदान कर सकें।

हम Out of School Hours Care (स्कूल के बाद के घंटों में देखभाल) सेवाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने स्थानीय स्कूलों के संपर्क में रहें। इससे स्कूल के बाद के घंटों में देखभाल (Out of School Hours Care) सेवाओं को मदद मिलेगी कि जैसे-जैसे विद्यार्थी वापस आने लगे वे अपने स्कूल चलाने को प्रभावशाली रूप से नियोजित कर सकें।

## स्वास्थ्य संबंधी सफ़ाई के तरीके

### जब बच्चे स्कूल में होंगे तो स्कूल सामाजिक दूरी को किस प्रकार बनाए रखेंगे?

स्कूल उन उचित सामाजिक दूरी के तरीकों को लागू करते रहेंगे जो उस समय की स्वास्थ्य सलाह पर आधारित होंगे। हर रोज़ आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करने से शिक्षक छोटी साइज़ की कक्षाएँ चला पाएँगे। पूरे दिन में अलग-अलग समय पर आरम्भ, समाप्त करना व अवकाश लेने से सामाजिक दूरी को सही तरीके से चलाया जा सकता है।

### आराम के समय (recess) व भोजन के लिए अवकाश के बारे क्या होगा?

आराम (recess) व भोजन के समय को अलग-अलग किया जा सकता है – विद्यार्थी आराम व भोजन भिन्न समय पर कर सकते हैं। वे सब गतिविधियाँ जो आवश्यक नहीं हैं उन्हें कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया है। इसमें असेम्बली, मीटिंग, घूमने-फिरने जाना आदि शामिल हैं।

### क्या बच्चों को लेने व छोड़ने के समय को भी अलग-अलग किया जाएगा?

हाँ, बच्चों को लेने व छोड़ने के समय को भी अलग-अलग किया जा सकता है। बदलावों के बारे में स्कूल की सलाह का पालन करें। यदि आप अपने स्कूल में किसी से बात करना चाहते हैं तो कृपया ईमेल या फ़ोन का उपयोग करें, और यदि आवश्यकता हो तो आप टेलिफ़ोन दुभाषिया सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं।

### अपने बच्चे/बच्चों को घर से पढ़ाई करने में सहायता करने के लिए मैं ABC शिक्षा चैनल का उपयोग कैसे कर सकता हूँ?

बच्चों को घर पर पढ़ाई करने में सहायता देने के लिए शिक्षा विभाग ने ABC टेलिविज़न के साथ मिल कर काम किया है।

शैक्षिक कार्यक्रम 10am to 3pm on ABC ME पर आते हैं और इसमें Ecomaths, ScienceXplosion, Numberblocks व चलते फिरते अंग्रेज़ी सीखें (English on the Go) <https://www.abc.net.au/tveducation/> जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं

## जातीय पक्षपात

हमें यह जानकारी है कि COVID-19 की स्थिति में हमारे समुदाय के कुछ सदस्यों के विरुद्ध कुछ जातीय दुर्व्यवहार व पक्षपात की खबरें आई हैं, विशेष कर चीनी व अन्य एशियाई पृष्ठभूमि के लोगों के विरुद्ध।

NSW पब्लिक स्कूलों में जातिवाद व जातीय पक्षपात सहन नहीं किया जाता है। हमारी जातिवाद विरोधी नीति निष्पक्षता व समावेशन को बढ़ावा देती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी विद्यार्थी, स्टाफ़ का सदस्य या स्कूल समुदाय का सदस्य जातिवाद का अनुभव न करें। सभी स्कूलों के लिए ज़रूरी है कि वे प्रशिक्षित जातिवाद विरोधी संपर्क अधिकारी रखें। जातिवाद शिक्षा का नेतृत्व करने में यह अधिकारी प्रिन्सीपल की सहायता करता है और यह सलाह दे सकता है कि जातिवाद के विरुद्ध शिकायत कैसे की जा सकती है।

## यदि मेरे बच्चे को स्कूल में जातिवाद का अनुभव हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए?

वे विद्यार्थी जिन्हें स्कूल में जाति संबंधी पक्षपात का अनुभव होता है, उन्हें किसी शिक्षक या स्कूल के जातिवाद विरोधी संपर्क अधिकारी को सूचना देनी चाहिए।

## स्कूल में जातिवाद संबंधी पक्षपात के बारे में मैं शिकायत कैसे करूँ?

स्कूल समुदाय का कोई भी सदस्य, जिसमें माता-पिता, स्टाफ़ व विद्यार्थी शामिल हैं, जातिवाद के बारे में शिकायत कर सकते हैं। जातिवाद के बारे में शिकायत प्रिन्सीपल, जातिवाद विरोधी संपर्क अधिकारियों या किसी अन्य स्टाफ़ के सदस्य से की जा सकती है।

## ऑनलाइन जातिवाद के बारे में क्या किया जाता है?

स्कूल से संबंधित जातिवाद जो ऑनलाइन होता है, जैसे कि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी या सांस्कृतिक दल के विरुद्ध जातिवाद का उपयोग करता है तो इसे जिस प्रकार ऊपर बताया गया है उसी तरह स्कूल को बताना चाहिए।

ऑनलाइन पर सुरक्षित रहने संबंधी सलाह के लिए सुरक्षा कमीश्रर की वेबसाइट [Online safety](#) पर देखें।

## मुझे अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है?

[anti-racism education](#) पर अधिक जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## टेलीफ़ोन दुभाषिया सेवा

यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया अपने स्कूल के प्रिन्सीपल को फ़ोन करें। यदि आपको अपने प्रश्न के बारे में दुभाषिए की मदद चाहिए तो टेलीफ़ोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फ़ोन करें, उनको बताएँ की आप कौनसी भाषा बोलते हैं। इस सेवा के लिए आपको कोई खर्चा नहीं देना होगा।